

प्रतीति—जागृति—अनुभव

प्रो. (डॉ.) सोहन राज तातेड़,

पूर्व कुलपति सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र मोक्ष मार्ग हैं। यह त्रिवेणी संगम है। प्रतीति का अर्थ है कि भीतर तक बात बैठा देना। किसी को गहरा एहसास कराने के बाद चिन्तन स्थिर हो जाता है। इसे प्रतीति कहते हैं। जागृति का अर्थ है चैतन्य रहना, विस्मृति न होना। अनुभव का अर्थ है अवचेतन मन में स्थिर हो जाना। अनुभव शब्दों से परे होता है। वह सार्वभौम सत्य है। आत्मा की जागृति के लिए प्रतीति कराने के लिए और अनुभव कराने के लिए ये तीनों हैं। वह शक्ति हमें दिखाई नहीं देती। वह परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।

मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन को पाकर सत् कर्म करना चाहिए। यह पुण्य का परिणाम है। करुणा के भाव, सरलता के भाव, परोपकार सभी जीवों को आत्म तूल्य मानने से आत्मा को स्वानुभूति होने लगती है। अस्तित्व को पहचानने से समदर्शन होता है। चेतन की पहली स्थिति है जीवात्मा, दूसरी अन्तरात्मा और तीसरी स्थिति है परमात्मा। जीवात्मा सुख—दुःख का अनुभव करता है। यह जड़ चेतन का संयुक्त रूप है। अन्तरात्मा सभी जीवों के भीतर विराजमान आत्मा है। परमात्मा सुख—दुःख, लाभ—हानि और जड़ चेतन से परे है। यह सच्चिदानन्द स्वरूप है। यह एक और अद्वितीय है। परमात्मा सभी द्वन्दों से परे है। शुद्ध आत्मा परमात्मा है। परमात्मा सिद्धशिला पर विराजमान होता है। स्थायी सुख की प्राप्ति शुद्धता की प्रतीति इसी अवस्था में होती है।

मानव को धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु मानव तन अति दुर्लभ है। पूर्वजन्म के सत्कर्मों के पश्चात् जीव को मानव तन प्राप्त होता है। जीव आत्मा से परमात्मा बनना चाहता है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाना, प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति का संरक्षण करना, मानव मात्र के साथ मैत्री का व्यवहार करना, सभी जीवों को अपने समान मानना, और सर्वभूत हित चिन्तन करना, बड़ों का सम्मान करना आदर्श जीवन शैली के मूलमंत्र है।

चौरासी लाख जीव योनियों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनुष्य को ऐसा आचरण करना चाहिए कि उसका सब अनुकरण करे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पंचमहाभूतों की पूजा हमारे देश में अनादिकाल से हो रही है। हमारे पूर्वजों को यह ज्ञात था कि यदि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया जायेगा तो प्रकृति रूष्ट होकर के मानव को उसका दंड अवश्य देगी। प्रकृति के जितने भी अवयव है वे सभी प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर जीवन—यापन करते हैं। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों की सभ्यता में प्रकृति पूजा के चिह्न मिले हैं। प्रकृति के जितने भी उपादान है वे सभी समान बर्ताव करते हैं।

जीवन—यापन करने के लिए लोग रातों दिन काम करते हैं। समय का नियोजन स्वस्थ जीवनचर्या के लिए बहुत आवश्यक है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। समाज में रहनेवाले हर वर्ग के लिए समय का नियोजन आवश्यक है। विद्यार्थी को चाहिए कि वह समय से अध्ययन करें और अपने लक्षित मंजिल का प्राप्त करें। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने अध्यापन के कार्य को पूर्ण मनोयोग के साथ करें। किसान का कार्य यह है कि वह समय के अनुकूल फसलों को बोये और अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करे। इसी प्रकार राजनेता, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसायी सभी अपने—अपने उत्तरदायित्वों को समझते हुए कार्य करे जिससे समाज में एक रूपता बनी रहे और राष्ट्र का विकास हो।

समय के नियोजन के बिना उन्नति होना असंभव है। जिस मौसम में जो फसल बोनी जानी है यदि उसको न बोकर अन्य फसल का उत्पादन करने का प्रयास किया जायेगा तो सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में यदि विद्यार्जन करने में लापरवाही दिखायेंगे तो जीवनभर उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि समय का जीवन में कितना अधिक महत्व है। गया हुआ समय फिर जीवन में लोटकर नहीं आता। समयानुकूल आचरण करने से जीवनचर्या नियमित रहती है। मानव स्वस्थ रहता है। पशु—पक्षी, जलचर, नभचर आदि प्राणी प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके स्वस्थ रहते हैं। मानव को भाव क्रिया का पालन करना चाहिए।

भाव क्रिया का तात्पर्य है भाव के अनुकूल क्रिया। वर्तमान में जीना, पढ़ते समय केवल पढ़ने में मन लगाना, खेलते समय केवल खेलने में मन लगाना आदि क्रियाएं भावक्रिया कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय जो कार्य किया जा रहा है उसे पूर्ण मनोयोग के साथ किया जाना चाहिए। आदर्श जीवनशैली के लिए प्रतिक्रिया विरति आवश्यक है। प्रतिक्रिया विरति का तात्पर्य है कि किसी के कार्य पर तत्काल प्रतिक्रिया न करना। मान लीजिए कोई आप पर क्रोध करता है तो उस क्रोध करने वाले व्यक्ति पर तत्काल क्रोध करके उसका प्रतिकार नहीं करना चाहिए। यह चिन्तन करना चाहिए कि इस व्यक्ति ने मुझ पर क्यों क्रोध किया। यदि क्रोध का प्रतिकार क्रोध से किया जायेगा तो मारपीट होना अवश्यभावी है।